

105
2:05

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या:- /IV(3)2017-27(सा0) / 2013

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 15 सितम्बर, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दीनदयाल अन्तयोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत केन्द्रांश धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1616/श0वि0नि0/लेखा-735/बजट/2016-17, दिनांक 01.09.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में शासन के पत्र संख्या-965/IV(3)2017-27(सा0)/2013 दिनांक 22.08.2017 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रु0 2,54,90,000 की अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या-एस0 1708130219 को निरस्त करते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास -191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों की सहायता-01 -केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0105-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-42-अन्य व्यय" में अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-एस0 1709130040 के द्वारा रु0 2,46,23,582 एवं अनुदान संख्या-31, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास -800-अन्य व्यय-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0108-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-एस0 1709310041 के द्वारा धनराशि रु0 8,66,668 अर्थात् कुल धनराशि रु0 2,54,90,000 ऑनलाईन अवमुक्त करते हुये उक्त अलॉटमेंट आई0डी0 की प्रतियाँ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमान)
अपर सचिव।

~~FO (AKA)~~

Nagar nikay 2017

1
20/9/17

संख्या:-1396 /IV(3)2017-27(सा0) /2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार ऑडिट, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0-1/105, इन्द्रानगर देहरादून।
3. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास अभिकरण (सूडा) देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईवर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।